



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 भाद्र 1940 (श0)

(सं0 पटना 784) पटना, बृहस्पतिवार, 23 अगस्त 2018

सं० 8/चौ०-90-08/2017-7308/गृ०आ०

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

20 अगस्त 2018

विषय:—बिहार राज्य चौकीदार/दफादार को वर्दी भत्ते के नगद भुगतान के संबंध में।

चौकीदार संवर्ग के कर्मियों को वर्ष 1990 से चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया है। उनके कर्तव्य की प्रकृति एवं पुलिस बल के साथ उनके सामंजन को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार 2015 में उनके लिए वित्त विभाग की सहमति से रू० 3000/—(तीन हजार रुपये) प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार पुलिस के सिपाही एवं हवलदार का तत्समय वर्दी भत्ता रू० 4000/— (चार हजार रुपये) प्रतिवर्ष था।

2. बिहार पुलिस के सिपाही एवं हवलदार को रू० 4000/—(चार हजार रुपये) प्रति वर्ष की दर से उक्त वर्दी भत्ता की स्वीकृति वर्ष 2010 में दी गई थी, जिसे छः वर्षों के उपरांत वित्त विभाग के संकल्प सं०-8045, दिनांक 11.10.2017 द्वारा बढ़ा कर रू० 10000/—(दस हजार रुपये) प्रतिवर्ष कर दिया गया है। पुलिस/हवलदार के लिए वर्दी भत्ता में हुई वृद्धि को दृष्टिपथ में रखते हुए चौकीदार एवं दफादार/वरीय दफादार के लिए स्वीकृत भत्ता में वृद्धि किया जाना अपेक्षित है।

3. उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत चौकीदार संवर्ग के कर्मियों के वर्दी भत्ता में वृद्धि कर उसे रू० 5000/— (पाँच हजार रुपये) प्रतिवर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 784-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>